

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

& Fax : 0551-2334549

09792987700

e-mail : digvijayans@gmail.com

dnpgegkp@gmail.com

website : www.dnpgcollege.edu.in

दिनांक : 02.06. 2022

प्रकाशनार्थ

गोरखपुर: दिग्विजयनाथ पी जी कॉलेज गोरखपुर, बी.एड विभाग और आल इन वन कंसल्टेंसी, गोरखपुर ने दिनांक 02 जून 2022 को रोजगार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

दिग्विजयनाथ पी जी कॉलेज गोरखपुर के प्राचार्य प्रो.ओमप्रकाश सिंह एवं आल इन वन कंसल्टेंसी, गोरखपुर के निदेशक श्री गोविंद पाण्डेय ने डॉ गीता सिंह, प्रभारी बी.एड, डॉ शुभ्रा श्रीवास्तवा, डॉ सुभाष चंद्रा, श्री पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी, प्लेसमेंट सेल डॉ शैलेश कुमार सिंह एवं श्रीमती कनिका मेहता की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने कहा की इस एमओयू से बी.एड के विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को रोजगार के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय खुला है। वर्तमान में रोजगार नवजवानों की प्राथमिकता है और ऐसे में महाविद्यालय की ये पहल निश्चित तौर पर अन्य संस्थाओं के लिए भी प्रेरणादायक होगी।

समझौता ज्ञापन के उपरांत बी.एड विभाग के विद्यार्थियों हेतु कैम्पस प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बी.एड के 40 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और उसमें से कुल 20 छात्रों को ढाई लाख से तीन लाख तक के सालाना पैकेज पर प्लेसमेंट हेतु चयनित भी किया गया।

इस अवसर पर ऑल इन वन कंसल्टेंसी के निदेशक श्री गोविंद पांडे जी ने कहा कि हम निरंतर इस समझौता ज्ञापन के तहत विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए समय-समय पर सूचना प्रेषित करते रहेंगे एवं उनके व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे जिससे कि महाविद्यालय के छात्र लाभान्वित हो सके और जब कैम्पस प्लेसमेंट हेतु कंपनियां महाविद्यालय में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी प्लेसमेंट हेतु चयनित हो सके।

कार्यक्रम के अंत में बी.एड विभाग की प्रभारी डॉ गीता सिंह ने ऑल इन वन कंसल्टेंसी की टीम, बी.एड विभाग, प्लेसमेंट सेल सहित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों हेतु इस प्रकार के कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन निरंतर करता रहेगा।

प्लेसमेंट कार्यक्रम का संचालन डॉ सुभाष चंद्रा, बी.एड विभाग ने किया तथा इस अवसर पर बी.एड विभाग के शिक्षकों, प्लेसमेंट सेल प्रभारी, श्री पवन कुमार पाण्डेय, डॉ शैलेश सिंह, डॉ शशिप्रभा सिंह, सहित बी.एड विभाग के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उक्त सूचना महाविद्यालय के डॉ शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी, सूचना एवं जनसंपर्क द्वारा दी गई

डॉ. शैलेश कुमार सिंह
प्रभारी, सूचना एवं जनसंपर्क